



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 18.04.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

पंचायत चुनाव के दृष्टिगत चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर, उपद्रवियों को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक खीरी ने दिए निर्देश



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी पुलिस द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु समस्त तैयारियां कर ली गई हैं। राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में कमान्डो टीम, पीएसी, पुलिस व खुफिया पुलिस की टीम तैनात की गई है। पुलिस द्वारा सतत भ्रमणशील रहकर चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जनपद के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर प्रर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल, कल्सटर मोबाइल आदि द्वारा सतत भ्रमणशील रहकर संपूर्ण क्षेत्र पर निगरानी रखी जा रही है।

शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा विशेष कमान्डो दल का गठन किया गया है जिन्हें चुनाव में उपद्रव करने वालों के साथ सख्ती से निपटने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा खुफिया पुलिस बल को भी लगाया गया है जो गोपनीय रूप से सभी पर नजर रखेंगे। समस्त थाना क्षेत्रों में पुलिस व पीएसी द्वारा देर रात तक लगातार रूट मार्च किया है तथा आज प्रातः से ही रूट मार्च जारी है।

अब तक हिंसा फैलाने वाले, झगड़ा-लड़ाई व मारपीट करने वाले कई चुनाव प्रत्यासियों व उनके समर्थकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि चुनाव के दिन यदि किसी भी प्रत्यासी या उनके समर्थकों द्वारा कोई भी गड़बड़ी अथवा अराजकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

थाना ईशानगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03

व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना ईशानगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों 1. गुफरान पुत्र भाबिर 2. गेराजुद्दीन पुत्र भलाउद्दीन 3. राजू पुत्र भलाउद्दीन सर्व नि० गण कबरियन पुरवा थाना ईशानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्तें व कुल 180 रुपये बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 174/21 धारा 13 जुआं अधि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 153/21 धारा 457/380 भादवि० में वांछित अभियुक्तों 1. सूरज पुत्र राम नि० मीलपूरवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी 2. सरवन पुत्र हरीशंकर नि० नई बस्ती मीलपूरवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी 3. दीपक उर्फ हिन्ना पुत्र सरवा नि० मीलपूरवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी गिरफ्तार किया गया।
- थाना मितौली पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 131/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अयूब अली पुत्र मोईन अली नि० कस्ता थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।